



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 कार्तिक 1938 (श10)
(सं0 पटना 978) पटना, मंगलवार, 15 नवम्बर 2016

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

15 नवम्बर 2016

सं० 3/एम०-54/2015-15334/सा०प्र०—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु इस विभाग का संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही, संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत जल संसाधन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित पद को संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

| क्र० सं० | विभाग/कार्यालय का नाम | संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.15 की अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पद। |
|----------|-------------------------------|--|
| 1. | जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना। | मुख्य अभियंता (यांत्रिक) का पद। |

3. उपरोक्त पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इस पद पर सेवा लेने के संबंध में प्रभासी विभाग द्वारा संकल्प

के प्रावधानानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासी विभाग, उक्त संकल्प एवं उससे संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-11398 दिनांक 23.08.2016 एवं अन्य परिपत्रों/दिशा-निर्देशों के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,

एम0 एस0 अंसारी,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 978-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>